



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 237) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मई 2012

मुख्य अभियंता-2 पटना  
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश  
26 मई 2012

सं0 1405—जल संसाधन विभाग बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0, दिनांक 04.02.02, पत्रांक-1337, दिनांक 21.03.07, पत्रांक-1117 दिनांक-7.5.05 एवं पत्रांक-2360 दिनांक-24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2 दरभंगा (नवसृजित ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर) का पत्रांक-1160, दिनांक 15.09.2011 एवं जिलापदाधिकारी मधुबनी का पत्रांक-944, दिनांक 15.07.11 के क्रमांक 71 द्वारा श्री पिन्दु कुमार पिता-स्व0 जनार्दन प्रसाद साह भुतपूर्व अनुसेवक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 झंझारपुर (नवसृजित ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास) को अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा प्राप्त के आलोक में श्री पिन्दु कुमार को कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2, मधुबनी (नवसृजित ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर) के कार्यालय में वर्ग-4 (चार) के रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर (पुराना वेतनमान 2550-3200) नया वेतनमान-(4400-7440) एवं ग्रेड वेतन 1300 रु0 में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ते तथा अन्य अनुमान भत्तों सहित नियुक्त किया जाता है। वे अपना योगदान, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, मधुबनी (नवसृजित ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर) में वर्ग चार के रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत योगदान दें देंगे, अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

2. स्व0 जनार्दन प्रसाद साह भुतपूर्व अनुसेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री पिन्दु कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। उसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।

5. अगर श्री पिन्दु कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों की मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संस्था/बोर्ड से सत्यापित करा लिया गया है। अन्य कागजात जाँच करने के पश्चात् ही श्री पिन्दु कुमार के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

9. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964, दिनांक-31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,  
ई0 अच्छे लाल राम।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 237-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>